

**JAC**

**ACT**  
**Commerce**

Total No. of Pages : 40  
पृष्ठों की कुल संख्या : 40

**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्**  
**ANNUAL INTERMEDIATE EXAMINATION - 2024**  
**ACCOUNTANCY**  
**( Compulsory )**

Total Time : 3 Hours 15 Minute

Full Marks : 80

कुल समय : 3 घंटे 15 मिनट

पूर्णांक : 80

**General Instructions / सामान्य निर्देश :**

1. This Question Booklet has *two* Parts — **Part-A** and **Part-B**.

इस प्रश्न-पुस्तिका में दो भाग — भाग-A तथा भाग-B हैं।

2. **Part-A** is of MCQ Type having **30** marks and **Part-B** is of Subjective Type having **50** marks.

भाग-A में 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न तथा भाग-B में 50 अंक के विषयनिष्ठ प्रश्न हैं।

3. The candidate has to answer in the Answer Booklet which will be provided separately.

परीक्षार्थी को अलग से उपलब्ध कराई गई उत्तर-पुस्तिका में उत्तर देना है।

**JAC****ACT**  
**Commerce**

4. **Part-A** — There are **30** Multiple Choice Questions having four (4) options ( A, B, C & D ). The candidate has to write the correct option in the Answer Booklet. All questions are compulsory. Each question carries **1** mark. There is no negative marking for wrong answer.

भाग-A — इसमें **30** बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके 4 विकल्प ( A, B, C तथा D ) हैं। परीक्षार्थी को उत्तर-पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा।

5. **Part-B** — There are *three* sections : **Section-A, B & C.**

This part is of Subjective Type having Very Short Answer, Short Answer & Long Answer Type questions. Total number of questions is **22.**

**Section-A** — Question Nos. **31-38** are Very Short Answer Type. Answer any **6** questions. Each question carries **2** marks. Answer the questions in one sentence each.

**Section-B** — Question Nos. **39-46** are Short Answer Type. Answer any **6** questions. Each question carries **3** marks. Answer the questions in maximum 150 words each.

**Section-C** — Question Nos. 47-52 are Long Answer Type. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks.  
Answer the questions in maximum 250 words each.

**भाग-B** — इस भाग में तीन खण्ड — खण्ड-A, B तथा C हैं। इस भाग में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 22 है।

**खण्ड-A** — प्रश्न संख्या 31-38 अति लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें।  
प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए।

**खण्ड-B** — प्रश्न संख्या 39-46 लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें।  
प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें।

**खण्ड-C** — प्रश्न संख्या 47-52 दीर्घ उत्तरीय हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें।

6. Candidates are required to answer in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

**JAC**

**ACT**  
**Commerce**

7. *Candidate has to hand over his/her Answer Booklet to the Invigilator compulsorily before leaving the examination hall.*

परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ने के पहले अपनी उत्तर-पुस्तिका वीक्षक को अनिवार्य रूप से लौटा दें।

8. *Candidates can take away the Question Booklet after completion of the Examination.*

परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका अपने साथ लेकर जा सकते हैं।

**JAC****ACT**  
**Commerce****Part-A****भाग-A****( Multiple Choice Type Questions )****( बहुविकल्पीय प्रश्न )**

Question Nos. 1 to 30 are Multiple Choice Type. Each question has four options. Select the correct option and write it in the Answer Sheet. Each question carries 1 mark. 1 × 30 = 30

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रकार हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. Goodwill is

(A) a tangible asset

(B) an intangible asset

(C) a current asset

(D) none of these

ख्याति है

(A) मूर्त सम्पत्ति

(B) अमूर्त सम्पत्ति

(C) चालू सम्पत्ति

(D) इनमें से कोई नहीं

2. In the absence of any agreement, the profits and losses of the firm are shared

(A) equally

(B) in capital ratio

(C) both (A) and (B)

(D) None of these

किसी समझौते के अभाव में, साझेदारी फर्म के लाभ-हानि का विभाजन किया जाता है

(A) बराबर-बराबर अनुपातों में

(B) पूंजी के अनुपात में

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

JAC

3. At the time of admission of a new partner, General Reserve appearing in the old Balance Sheet is transferred to

- (A) Capital Accounts of all partners
- (B) Capital Accounts of new partners
- (C) Capital Accounts of old partners
- (D) None of these

नये साझेदार के प्रवेश पर, पुराने तुलन-पत्र में दर्शाये गये सामान्य संचय हस्तान्तरित किये जाते हैं

- (A) सभी साझेदारों के पूंजी खाते में
- (B) नये साझेदारों के पूंजी खातों में
- (C) पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में
- (D) इनमें से कोई नहीं

4. The liability of members in a company is

- (A) Limited (B) Unlimited  
(C) Stable (D) Fluctuating

एक कम्पनी में सदस्यों का दायित्व है

- (A) सीमित (B) असीमित  
(C) स्थिर (D) परिवर्तनशील

5. Current liabilities include

- (A) Sundry Creditors  
(B) Outstanding Expenses  
(C) Bills Payable

(D) All of these

चालू दायित्व में शामिल होता है

- (A) विविध लेनदार (B) अदत्त व्यय  
(C) देय बिल (D) इनमें से सभी

6. A joint stock company is

- ~~(A)~~ An artificial legal person  
(B) A natural person  
(C) A general person  
(D) None of these

संयुक्त कम्पनी है

- (A) वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति (B) प्राकृतिक व्यक्ति  
(C) सामान्य व्यक्ति (D) इनमें से कोई नहीं

**JAC**

ACT  
Comm

7. Bonus shares are issued to

- (A) Equity shareholders
- (B) Preference shareholders
- (C) Debenture holders
- (D) All of them

बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है

- (A) समता अंशधारियों को
- (B) पूर्वाधिकार अंशधारियों को
- (C) ऋणपत्रधारियों को
- (D) इनमें से सभी

8. Debenture holders receive

(A) Dividend

(B) Profit

(C) Interest

(D) None of these

ऋणपत्रधारी प्राप्त करते हैं

(A) लाभांश

(B) लाभ

(C) ब्याज

(D) इनमें से कोई नहीं

9. Which of the following is not a part of financial statement of a company ?

(A) Profit & Loss Statement

(B) Balance Sheet

(C) Ledger Account

(D) None of these

**JAC**

निम्न में से कौन एक कम्पनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है ?

- (A) लाभ-हानि विवरण
- (B) आर्थिक चिह्न
- (C) लेजर खाता
- (D) इनमें से कोई नहीं

10. Profitability Ratio is generally shown in

- (A) Simple Ratio
- (B) Percentage
- (C) Times
- (D) None of these

लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है

- (A) साधारण अनुपात में
- (B) प्रतिशत में
- (C) गुना में
- (D) इनमें से कोई नहीं

**TLV(XII)-49080**

**XC-ACT-(COMP.)-C**

वित्तीय विवरण होते हैं

- (A) प्रत्याशित तथ्य
- (B) अभिलेखित तथ्य
- (C) अनुमानित तथ्य
- (D) इनमें से कोई नहीं

13. Shares can be forfeited

- (A) for failure to attend meetings
- ~~(B) for non-payment of call money~~
- (C) for failure to repay the loan to the bank
- (D) for which shares are pledged as a security

11. Cash Flow Statement is related to

(A) AS-3

(B) AS-6

(C) AS-9

(D) AS-12

रोकड़ प्रवाह विवरण सम्बन्धित है

(A) ए.एस.- 3 से

(B) ए.एस.- 6 से

(C) ए.एस.- 9 से

(D) ए.एस.- 12 से

12. Financial statements are

(A) Anticipated facts

(B) Recorded facts

(C) Estimated facts

(D) None of these

अंशों का हरण किया जा सकता है

- (A) सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में
- (B) मांग राशि के भुगतान न करने पर
- (C) बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में
- (D) प्रतिभूति के रूप में अंशों के बन्धक होने पर

14. Current Assets on the Asset side of Balance Sheet of a Company

include

- (A) Sundry Debtors
- (B) Cash in hand
- (C) Stock
- (D) All of these

कम्पनी के आर्थिक चिह्ने के सम्पत्ति पक्ष में चालू सम्पत्ति में शामिल है

- (A) विविध देनदार
- (B) हाथ में रोकड़
- (C) स्कन्ध
- (D) इनमें से सभी

15. Cash Flow Statement is based upon

- (A) Accrual basis of accounting
- (B) Cash basis of accounting
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of these

रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है

- (A) लेखांकन के उपार्जन आधार पर
- (B) लेखांकन के रोकड़ आधार पर
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

16. Interest on partners' capital is

- (A) an expenditure
- (B) an appropriation
- (C) a gain
- (D) none of these

साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है

- (A) व्यय
- (B)  विनियोजन
- (C) लाभ
- (D) इनमें से कोई नहीं

17. In the absence of partnership deed partners shall

- (A) be paid salaries
- (B) not be paid salaries
- (C) be paid salaries to the partners who work for the firm
- (D) none of these

साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को

- (A) वेतन दिया जायेगा
- (B) वेतन नहीं दिया जायेगा
- (C) वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदारों को दिया जायेगा •
- (D) इनमें से कोई नहीं

18. Generally debentures are

- (A) Secured (B) Unsecured  
(C) Partly secured (D) None of these

साधारणतया ऋणपत्र होते हैं

- (A) सुरक्षित (B) असुरक्षित  
(C) अंशतः सुरक्षित (D) इनमें से कोई नहीं

19. Sacrificing Ratio is equal to

- (A) New ratio - Old ratio  
(B) Old ratio - New ratio  
(C) Gaining ratio - Old ratio  
(D) None of these

**JAC**

त्याग अनुपात बराबर होता है

- (A) नया अनुपात - पुराना अनुपात
- (B) पुराना अनुपात - नया अनुपात
- (C) प्राप्ति अनुपात - पुराना अनुपात
- (D) इनमें से कोई नहीं

20. Which one of the following is not a non-cash item ?

- (A) Cash sales
- (B) Goodwill written off
- (C) Depreciation
- (D) None of these

निम्न में से कौन एक गैर-रोकड़ पद नहीं है ?

- (A) नकद विक्रय (B) ख्याति का अपलेखन  
(C) हास (D) इनमें से कोई नहीं

21. Financial statement discloses

- (A) Monetary information  
(B) Qualitative information  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these

वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है

- (A) मौद्रिक सूचना (B) गुणात्मक सूचना  
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

22. Partner's Current Account is prepared when capital of partners is maintained under

- (A) Fluctuating basis
- (B) Fixed basis
- (C) In both of the situations
- (D) None of these

साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है

- (A) परिवर्तनशील आधार पर
- (B) स्थायी आधार पर
- (C) दोनों परिस्थितियों में
- (D) इनमें से कोई नहीं

23. General Reserve Account always shows

- (A) Debit balance
- (B) Credit balance
- (C) Debit or Credit balance
- (D) None of these

सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है

- (A) डेबिट शेष
- (B) क्रेडिट शेष
- (C) डेबिट अथवा क्रेडिट शेष
- (D) इनमें से कोई नहीं

24. Financial analysis is useful

- (A) for investors
- (B) for shareholders
- (C) for debenture holders

~~(D)~~ all of them

वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है

- (A) विनियोगकर्ताओं के लिए
- (B) अंशधारियों के लिए
- (C) ऋणपत्रधारियों के लिए
- (D) इनमें से सभी

25. Which of the following is not a profitability ratio ?

- (A) Gross profit ratio
- (B) Net profit ratio
- (C) Current ratio
- (D) Operating ratio

निम्नलिखित में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है ?

- (A) सकल लाभ अनुपात                      (B) शुद्ध लाभ अनुपात  
(C) चालू अनुपात                              (D) संचालन अनुपात

26. What is shown by Balance Sheet ?

- (A) Accuracy of books of accounts  
(B) Profit or loss of a specific period  
(C) Financial position on a specific date  
(D) None of these

स्थिति विवरण क्या दर्शाता है ?

- (A) पुस्तकों की शुद्धता  
(B) एक निश्चित अवधि का लाभ या हानि

✓ (C) निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति

(D) इनमें से कोई नहीं

27. Dividend is usually paid

- (A) on Authorised Capital
- (B) on Issued Capital
- (C) on Paid-up Capital ✓
- ✓(D) on Called-up Capital

सामान्यतः सामान्यतः दिया जाता है

- (A) अधिकृत पूंजी पर
- (B) निर्गमित पूंजी पर
- (C) प्रदत्त पूंजी पर
- (D) याचित पूंजी पर

28. Debenture is a

- ~~(A)~~ Loan certificate                      (B) Cash certificate  
(C) Credit certificate                      (D) None of these

ऋणपत्र है

- (A) ऋण का प्रमाण-पत्र                      (B) नकद का प्रमाण-पत्र  
(C) साख का प्रमाण-पत्र                      (D) इनमें से कोई नहीं

29. Premium on Redemption of Debentures A/c is

- (A) Asset    (B) Expenses  
(C) Liability    (D) Revenue

ऋणपत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता है

- (A) सम्पत्ति (B) व्यय  
(C) दायित्व (D) आय

30. Expenses on dissolution of a firm are called

- (A) Realisation expenses  
(B) Legal expenses  
(C) Loss expenses  
(D) None of these

फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं

- (A) वसूली व्यय (B) कानूनी व्यय  
(C) हानिगत व्यय (D) इनमें से कोई नहीं

**JAC**

**ACT**  
**Commerce**

**Part-B**

**भाग-B**

**( Subjective Type )**

**( विषयनिष्ठ प्रश्न )**

**Section - A**

**खण्ड - A**

**( Very short answer type questions )**

**( अति लघु उत्तरीय प्रश्न )**

Answer any six questions. Answer the questions in one sentence each.

$2 \times 6 = 12$

किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए।

31. What is meant by Non-current Assets ?

गैर-चालू सम्पत्ति से क्या आशय है ?

32 What are Collis-in arrear ?

अदत याचना किसे कहते हैं ?

33 What is Current Ratio ?

चालू अनुपात क्या है ?

34 What is Gaining Ratio ?

लाभ-अनुपात क्या है ?

35. What is Cash Flow Statement ?

रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है ?

36 What is Sacrificing Ratio ?

त्याग अनुपात क्या है ?

37. In the absence of any provision in the Partnership Deed, in which ratio do the partners share the profits or losses ?

साझेदारी संलेख में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में साझेदार किस अनुपात में लाभ या हानि का विभाजन करते हैं ?

38. What is Realisation Account ?

वसूली खाता क्या है ?

**Section - B**

**खण्ड - B**

**( Short answer type questions )**

**( लघु उत्तरीय प्रश्न )**

Answer any six questions. Answer the questions in maximum

150 words each.

$3 \times 6 = 18$

किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें।

39. Explain the main characteristics of a public company.

सार्वजनिक कम्पनी की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

40. Profits of last three years were Rs. 4,000, Rs. 12,000 and Rs. 8,000. What will be the value of goodwill at 2 years purchase of average profit ?

पिछले तीन वर्षों के लाभ 4,000 रु०, 12,000 रु० तथा 8,000 रु० थे। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर क्या होगा ?

41. What do you mean by Forfeiture of shares ?

अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं ?

42. Current Assets and Current Liabilities of a company were Rs. 1,40,000 and Rs. 70,000 respectively. Calculate the Current ratio.

एक कम्पनी की चालू सम्पत्तियाँ 1,40,000 रु० थीं और चालू दायित्व 70,000 रु० थे। चालू अनुपात की गणना कीजिए।

43. Distinguish between Preference Share and Equity Share.

पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अन्तर बताइए।

44. State the various characteristics of an Ideal Financial Statement.

आदर्श वित्तीय विवरण की विभिन्न विशेषताओं को बताइए।

45. What is meant by reconstitution of a partnership firm ?

एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है ?

46. Distinguish between Share and Debenture.

अंश एवं ऋणपत्र में अन्तर कीजिए।

**Section - C**

**खण्ड - C**

**( Long answer type questions )**

**( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न )**

Answer any *four* questions. Answer the questions in maximum  
250 words each.

5 × 4 = 20

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें।

47. Explain the importance of Cash Flow Statement.

रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

48. What do you mean by Financial Statements ? State their objectives.

वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं ? इसका उद्देश्य बताएँ।

9. A, B and C are equal partners. The Balance Sheet on the date of dissolution was as follows :

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)
Creditors	11,000	Bank	3,000
Bills Payable	1,000	Bills Receivable	2,000
B's Loan	2,000	Investment	8,000
<u>Capital</u>		Debtors	16,000
A     36,000		Stock	28,000
B     24,000		Furniture	6,000
C <u>2,000</u>	62,000	Machinery	13,000
	76,000		76,000

Assets realised — Debtors and Bills receivable Rs. 17,000,  
Investment Rs. 7,600, Stock Rs. 25,000, Furniture Rs. 6,600 and  
Machinery Rs. 8,600. Liabilities were paid. Realisation Expenses  
were Rs. 500. Prepare Realisation Account.

A, B और C एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। फर्म की समाप्ति के दिन चिन्ता

निम्न था :

दायित्व	रकम (रु०)	सम्पतियाँ	रकम (रु०)
लेनदार	11,000	बैंक	3,000
देय बिल	1,000	प्राप्य बिल	2,000
B का ऋण	2,000	विनियोग	8,000
पूँजी		देनदार	16,000
A 36,000		स्टॉक	28,000
B 24,000		फर्नीचर	6,000
C <u>2,000</u>	62,000	मशीनरी	13,000
	76,000		76,000

सम्पतियों की वसूली — देनदार एवं प्राप्य बिल 17,000 रु०, विनियोग 7,600 रु०,

रहत्या 25,000 रु०, फर्नीचर 6,600 रु० एवं मशीनरी 8,600 रु०। दायित्वों का भुगतान

कर दिया गया। वसूली व्यय 500 रु० हुए। वसूली खाता बनाइए।

50 From the following particulars, you are required to calculate

Current Ratio :

Particulars	Rs.
Inventory	50,000
Debtors	40,000
Bills Receivable	10,000
Advance Tax	4,000
Cash in hand	30,000
Creditors	60,000
Bills Payable	40,000
Bank Overdraft	4,000

खत विवरणों से आपको चालू अनुपात की गणना करनी है :

विवरण	रु०
रहतिया	50,000
देनदार	40,000
प्राप्य बिल	10,000
अग्रिम कर	4,000
हस्तस्थ रोकड़	30,000
लेनदार	60,000
देय बिल	40,000
बैंक अधिविकर्ष	4,000

51. Compute Cash Flow from operating activities of Seemanchal Ltd.

from the following details :

	<b>31.3.2022</b>	<b>31.3.2023</b>
	( Rs. )	( Rs. )
Trade Receivables	1,50,000	1,80,000
Trade Payables	70,000	80,000
Prepaid Expenses	15,000	10,000
Outstanding Expenses	20,000	12,000
Bank Overdraft	20,000	50,000
Short-term Loan	10,000	20,000

Seemahcnal Ltd. earned a net profit of Rs. 65,000 during the year after taking into account the following adjustments :

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| i) Depreciation charged +     | Rs. 20,000 |
| ii) Loss on Sale of Machine + | Rs. 10,000 |

निम्नलिखित विवरणों से सीमांचल लिमिटेड की परिचालन क्रियाओं से संकट प्रयाग प्राप्त

कीजिए :

	31.3.2022	31.3.2023
	( ₹ )	( ₹ )
व्यापारिक प्राप्यताएँ	1,50,000	1,80,000
व्यापारिक देयताएँ	70,000	80,000
पूर्वदत्त व्यय	15,000	10,000
अदत्त व्यय	20,000	12,000
बैंक अधिविकर्ष	20,000	50,000
अल्पकालीन ऋण	10,000	20,000

सीमांचल लिमिटेड को वर्ष के दौरान निम्न समायोजन के संज्ञान के पश्चात् 65,000 ₹

का शुद्ध लाभ हुआ।

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| i) हास काटा गया            | 20,000 ₹ |
| ii) मशीन के विक्रय पर हानि | 10,000 ₹ |

52. a) Calculate Gross Profit Ratio from the following information :

	<i>Rs.</i>
Revenue from Operations	8,50,000
Purchases	4,30,000
Opening Inventory	1,30,000
Closing Inventory	90,000
Revenue from Operations	30,000
Carriage Inward	22,000

निम्नलिखित सूचना से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए :

	रु०
संचालन से आय	8,50,000
क्रय	4,30,000
प्रारम्भिक रहतिया	1,30,000
अंतिम रहतिया	90,000
संचालन से आय	30,000
आन्तरिक दुलाई	22,000

**JAC**

**ACT**  
**Commerce**

b) Calculate Liquid Ratio from the following information :

Current Liabilities Rs, 50,000, Inventory Rs. 25,000, Current Assets Rs. 80,000, Prepaid Expenses Rs. 5,000.

निम्नलिखित सूचनाओं से तरल अनुपात का परिकलन कीजिए :

चालू दायित्व 50,000 रु०, रहतिया 25,000 रु०, चालू परिसम्पत्तियाँ 80,000 रु०, पूर्वदत्त व्यय 5,000 रु० ।